

बुलंदशहर: घर में बनाते थे नकली शराब, छापेमारी में हुआ भंडाफोड़, केस दर्ज

आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने बुलंदशहर के सैदपुर गांव में एक मकान पर छापेमारी की और नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया।

नवभारत टाइम्स | Updated: 25 Mar 2019, 01:01:00 PM IST

Hindi News

Samachar

UP News

Bulandshahr News

Illegal Liquor Factory Got Busted In Bulanshahar



बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सैदपुर गांव में शनिवार को आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने एक मकान पर छापेमारी कर [नकली शराब](#) बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। खबर के मुताबिक, यहां बनाई गई नकली शराब ब्रैंडेड बोतलों में भरकर बुलंदशहर और गौतमबुद्ध नगर के ढाबों और गांवों में सप्लाई की जाती थी। [अवैध शराब](#) कंपनी का भंडाफोड़ दादरी के नगला गांव के पास चेकिंग के दौरान शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए एक व्यक्ति से पूछताछ के आधार पर हुआ। आबकारी टीम और पुलिस ने मौके पर से मुहरें, पैकिंग करने वाली पन्नी, खाली बोतलें, 10 पेटी शराब और स्टिकर बरामद किए हैं।

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चल रहा चेकिंग अभियान

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। रविवार सुबह आबकारी टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से नगला गांव के गेट के पास 20 पेटी अवैध शराब से भरी एक कार को पकड़ा। कार में सवार हापुड़ जिले के शेखपुर के सुरजीत और गाजियाबाद के भोजपुर के सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि यह शराब चुनाव के दौरान सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बताया कि वे यह शराब सैदपुर बुलंदशहर के मोंटी उर्फ उपेंद्र के घर से लेकर आए हैं। वह घर में अवैध शराब बनाने का काम करता है।

अवैध शराब बनाने वाले के खिलाफ केस दर्ज

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शराब की फैक्ट्री की सूचना लगने पर उन्होंने क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक बलराम सिंह और कोट पुलिस चौकी इंचार्ज विकास बालियान समेत कई अधिकारियों की टीम बनाकर सैदपुर गांव में दबिश दी। दबिश के दौरान शराब बनाने का सामान और 10 पेटी अवैध शराब बरामद हुआ। इसके अलावा खाली ढक्कन, बोतलें और सील करने की मशीन बरामद की गई। विभाग के अधिकारियों ने मोंटी उर्फ उपेंद्र के खिलाफ संबंधित थाने में केस दर्ज करा दिया है।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/bulandshahr/illegal-liquor-factory-got-busted-in-bulanshahar/articleshow/68549780.cms>